

January 20, 2022

BSE Limited Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 BSE Scrip Code: 509874 National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G- Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 NSE Symbol: SHALPAINTS

Sub: Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

In continuation to our letter dated January 19, 2022 and pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements regarding Notice of EGM, Cut-off Date and Remote E-voting information published on January 20, 2022 in the following newspapers:-

- The Financial Express All Editions; and
- Jansatta Hindi Edition

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

Sincerely yours,

For Shalimar Paints Limited

Shikha Rastogi

(Company Secretary)









Karnataka Bank Ltd.

Regd. & Head Office: P. B. No.599, Mahaveera Circle, Kankanady, Mangaluru - 575 002. Ph: 0824-2228222, Fax: 0824-2225588, E-mail: investor.grievance@ktkbank.com Website: www.karnatakabank.com. CIN: L85110KA1924PLC001128

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificate(s) have been reported as lost/misplaced and upon request from the shareholder(s)/legal heir(s) the Bank will proceed to issue duplicate share certificate(s) to the below mentioned person(s) unless a valid objection with all supporting documents is received by the Bank at its registered office within 15 days from the date of publication of this notice. No claim will be entertained by the Bank with respect to the original share certificate(s) subsequent to the issue of the duplicate thereof.

SI.	Folio No.	Cert No.		Dist No.		No. of	Name of the	
No.		From	To	From	To	Shares	Share Holder	
1	97000106	366167		25455192	25455241	50	BHASKAR K (Deceased)	
	4940	140351		5017501	5017550	50	SUDHAKAR HIREMATH	
		332552		13837146	13837195	50	(Deceased)	

Place : Mangaluru Date: 19/01/2022

Sr. No.

Notes:

Place: Mumbai

Date: 19 January, 2022

RP-Sanjiv Goenka

Particulars

Total Income from Operations

and/or Extraordinary items)

and/or Extraordinary items)

Basic (Rs.)

(www.saregama.com).

Diluted (Rs.)

Prasanna Patil Company Secretary

Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional

Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional

Total Comprehensive Income for the period [Comprising

Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)

standalone/consolidated financial results for the guarter and nine months ended 31 December, 2021

Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised)

Net Profit/(Loss) for the period before tax (after

Profit / (Loss) for the period (after tax) and other

Audited Balance Sheet of the previous year

Exceptional and/or Extraordinary items)

Comprehensive Income (after tax)]

EMRALD COMMERCIAL LIMITED Read, Off.: 18. Rabindra Sarani, Poddar

Court Gate No. 4. 4th Floor, Room No.4, Kolkata-700 001 Email Id.: emrald.com@gmail.com CIN: L29299WB1983PLC036040 NOTICE

Notice is hereby given that Pursuant t Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, (Listing Regulations) a meeting of the Board of Directors of EMRALD COMMERCIAL LIMITED will be held at the registered office of the Company on Monday, 31st January, 2022 at 04.15 P.M, inter alia, to consider and approve Audited Financia Results of the Company for the quarter ended December 31, 2021. In this connection, as informed earlier pursuant to "Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading read with the SEBI (Prohibition of Inside Trading) Regulations, 2015, as amended Trading Window for dealing in the securities of the Company shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company to the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and all connected persons covered under the

For EMRALD COMMERCIAL LIMITED **Mukesh Agarwal** Place: Kolkata Company Secretary

Standalone

Nine Months Ended

31-Dec-21

(Unaudited)

40,711

13,883

13,883

10,336

15,259

38.862

58.36

58.24

Quarter Ended

31-Dec-20

(Unaudited)

13,460

3.796

3,796

2.818

3,128

16.45

16.29

Dated: 19/01/2022

Saregama India Limited

Registered Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028

web: www.saregama.com, E-mail id: co.sec@saregama.com, Phone No.: 033-2551-2984, CIN: L22213WB1946PLC014346
Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31 December, 2021

Quarter Ended

31-Dec-21

(Unaudited)

15,474

5,696

5,696

4.248

3,036

1,928

23.06

23.02

Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results for the guarter and nine months

ended on 31 December, 2021 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website

The above unaudited standalone/consolidated financial results for the guarter and nine months ended 31 December, 2021 have been reviewed and recommended

by the Audit Committee in their meeting held on 19 January, 2022 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These

results have been subjected to "limited review" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unmodified review report on the unaudited

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended on 31 December, 2021 filed with Stock Exchanges under

persons covered under the aforesaid code. By Order of the Board

M. No. 61255

MANUFACTURING CO. LTD Regd. Off.: 221, Rabindra Sarani, 3rd Floor, Kolkata-700007 Email ID.: hamiltonpoles@rediffmail.com

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India Listing Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of HAMILTON POLES MANUFACTURING CO.LTD will be held at the registered office of the Company on Monday, 31st January, 2022 at 01:30 P.M, to consider and take on record, inter-alia th Unaudited Financial Results of the Compan for the quarter and nine month ended 31s December, 2021. In this connection, a informed earlier pursuant to "Company" Code of Conduct for Prohibition of Inside Trading" read with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, Trading Window for dealing in the securities of the Company shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company to the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and all connected

HAMILTON POLES

CIN: L28991WB1981PLC033462

NOTICE

For Hamilton Poles Manufacturing Co.Ltd Sd/-

By Order of the Board

Nine Months Ender

31-Dec-21

(Unaudited)

41.646

14,013

14,013

10,467

16,405

1,928

38,486

58.94

58.82

On behalf of the Board

Vikram Mehra

Managing Director

DIN: 03556680

www.strategyactvertising.co.ir

Shilpi Agarwal Place: Kolkata Company Secretary Dated: 19/01/2022

(Rs in Lakhs except as otherwise stated)

Consolidated

Quarter Ended

31-Dec-20

(Unaudited)

13,732

4,138

4,138

3,160

3,531

1,743

18.44

18.25

Quarter Ended

31-Dec-21

(Unaudited)

15,846

5,801

5,801

4,354

2,922

1,928

23.56

23.52

SYMBIOX INVESTMENT &

TRADING COMPANY LTD. Regd. Office: 7A, Rani Rashmoni Road, Kolkata-700 013 Email ID: symvioxinvestment100@gmail.com CIN NO. L65993WB1979PLC032012

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India Listing Regulations, 2015 a meeting of the Board o Directors of SYMBIOX INVESTMENT & TRADING COMPANY LTD, will be held a the registered office of the Company or Friday, 28th January, 2022 at 4:00 P.M, to approve the Un-Audited Financial Results for the guarter ended on 31st December 2021. In this connection, as informed earlie pursuant to "Company's Code of Conduc for Prohibition of Insider Trading" read with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, Trading Window for dealing in the securities of the Company shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the compan to the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and all connected persons covered under the aforesaid code. By Order of the Board

For SYMBIOX INVESTMENT AND TRADING CO. LTD Neha Pansari

Company Secretary

M. No. 31763 Dated: 19/01/2022

Place: Kolkata

ARC FINANCE LIMITED Regd. Off.: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court Gate No.4, 4th Floor, Room no. 3. Kolkata-700 001

Email ID: arcfinancelimited@gmail.com

CIN: L51909WB1982PLC035283

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India Listing Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of ARC FINANCE LIMITED wil be held at the registered office of the Company on Friday, 28th January, 2022 at 12.30 P.M, to approve the Unaudited Financia Results for the quarter ended on 31s December, 2021. In this connection, as informed earlier pursuant to "Company's Code of Conduct for Prohibition of Inside Trading" read with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, Trading Window for dealing in the securities of the Company shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company to the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and all connected

for ARC FINANCE LIMITED SD/ Rohit Jair **Company Secretary** Place: Kolkata Dated: 19/01/2022 M. No. 44371

persons covered under the aforesaid code

By Order of the Board

Place: Gurugram

Dated: January 19, 2022

KALPATARU ENGINEERING LIMITED Regd. Off.: 18, Rabindra Sarani Poddar Court, Gate No. 4, 4th Floor, Room No. 4 Kolkata-700001

Email ID: kalpataruenggltd@gmail.com CIN: L27104WB1980PLC033133 NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of the Securities and

Exchange Board of India Listing Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of KALPATARU ENGINEERING **LIMITED** will be held at the registered office of the Company on Wednesday 2nd February, 2022 at 02:00 P.M, to approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 31st December 2021. In this connection, as informed earlier pursuant to "Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading" read with the SEB Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, as amended, Trading Window for dealing in the securities of the Company shal remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company to the Stock Exchanges for all designated persons, their immediate relatives and all connected persons covered under the aforesaid code By Order of the Board For KALPATARU ENGINEERING LIMITED

Place: Kolkata Dated: 19/01/2022

Sandeep Verma

Company Secretary M. No. 046612

SM Energy Limited

CIN: L74999MH1994PLC077041 Registered Office: JSW Centre, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Tel.: 022-4286 1000 Fax: 022-4286 3000 Email: jswel.investor@jsw.in Website: www.jsw.in

Extract of Statement of Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2021

(₹ Crore)

Dowling	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended	
Particulars	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021	
	Unaudited			Unaudited		Audited	
Total Income from Operations	1,001.57	802.17	691.75	2,561.72	2,168.13	2,897.53	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional)	284.26	205.24	57.58	622.88	168.07	307.74	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional)	284.26	205.24	57.58	622.88	168.07	307.74	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional)	191.21	132.85	35.12	412.97	98.72	186.18	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	130.01	36.38	752.79	1,631.83	1,801.44	2,394.18	
Paid up Equity Share Capital (net of treasury shares)	1,639.61	1,639.54	1,642.25	1,639.61	1,642.25	1,642.33	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as on 31st March						9,990.01	
Net worth	12,339.95	12,206.56	10,524.77	12,339.95	10,524.77	11,116.22	
Earnings Per Share (of ₹ 10 each) (not annualised)							
Basic (₹)	1.16	0.81	0.21	2.51	0.60	1.13	
Diluted (₹)	1.16	0.81	0.21	2.51	0.60	1.13	
Debenture Redemption Reserve (₹ crore)	50.00	66.67	66.67	50.00	66.67	66.67	
Debt Service Coverage Ratio (in times)	5.78	4.40	1.00	4.50	0.74	1.02	
nterest Service Coverage Ratio (in times)	18.30	12.18	5.08	12.77	4.47	5.17	
Debt Equity Ratio (in times)	0.09	0.12	0.15	0.09	0.15	0.14	

Extract of Statement of Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2021

(₹ Crore)

Doutionland	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended	
Particulars	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021	
		Unaudited		Unau	udited	Audited	
Total Income from Operations	1,893.54	2,087.46	1,608.86	5,708.54	5,352.58	6,922.20	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional)	407.49	606.56	175.91	1,269.29	966.88	1,098.59	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional)	407.49	606.56	175.91	1,269.29	966.88	1,098.59	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional)	320.82	336.62	142.07	866.04	717.93	822.68	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	283.74	265.01	866.75	1,979.60	2,428.83	3,037.89	
Paid up Equity Share Capital (net of treasury shares)	1,639.61	1,639.54	1,642.25	1,639.61	1,642.25	1,642.33	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as on 31st March						12,864.67	
Earning Per Share (₹ 10 each) (not annualised):							
Basic (₹)	1.95	2.07	0.75	5.27	4.19	4.84	
Diluted (₹)	1.94	2.07	0.75	5.26	4.19	4.84	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results alongwith other items referred in Regulation 52(4) and Regulation 54 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 are available on www.jsw.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors



Prashant Jain Jt. Managing Director & CEO [DIN: 01281621]



PAINTS

SHALIMAR PAINTS LIMITED

CIN: L24222HR1902PLC065611

Regd Office: Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector - 32, Gurugram, Haryana - 122001 Corporate Office:1st Floor, Plot No. 28, Sector - 32, Gurugram, Haryana - 122001 Website: www.shalimarpaints.com E-mail: askus@shalimarpaints.com Phone No.: +91 124 461 6600 Fax No. +91 124 461 6659

NOTICE OF 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22, REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

- the 1" Extraordinary General Meeting for the Financial Year 2021-22 ("EGM") of the members of Shalimar Paints Limited ("the Company") will be held on Thursday, February 10, 2022 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visua Means ("OAVM"), to transact the Special Businesses, as set out in the Notice of the EGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide Nos. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021 and 20/2021 dated April 08, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021 and December 08, 2021 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at In terms of the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the EGM have been sent on January 19, 2022 only by email to the
- Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository participants on January 07, 2022. The requirement of sending the physical copy of the Notice of the EGM to the members has been dispensed with vide MCA circulars and SEBI
- The members holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. February 03, 2022, may cast their vote electronically on the Special Businesses as set out in the Notice of EGM through electronic voting systems of CDSL. All the members are informed that:
- The Special Businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting period shall commence on February 07, 2022 at 09:00 A.M. (IST); The remote e-voting period shall end on February 09, 2022 at 05:00 P.M. (IST);
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting / e-voting during the EGM is February 03, 2022 and a person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. February 03, 2022, may obtain the User ID and password by sending a request at email: beetalrta@gmail.com. However, a person who is already registered with BEETAL Financial & Computer Services Pvt Ltd for e-voting then existing User ID and password can be used to cast the vote
- Person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the Notice of EGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. such a person is already registered with CDSL for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote;
- Mr. Mohit Maheshwari, Partner or failing him Mr. Ankush Agarwal, Partner of M/s. MAKS & CO., Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner
- . Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again: c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM: and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM
- If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542/43).

Members, who are holding shares in physical form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with selfattested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt, document in support of the address proof of the Member as registered with the Company at askus@shalimarpaints.com for receiving the EGM Notice. Members holding shares in electronic/demat form can update their email address with their Depository Participants.

The Notice of the EGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e voting or by e-voting at the time of EGM and join the EGM through VC / OAVM.

The Notice of EGM is also available on the website of the Company www.shalimarpaints.com and on the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the Company's shares are listed

> By order of the Board of Directors For Shalimar Paints Limited

Shikha Rastogi Company Secretary

FIXED DEPOSIT SCHEME

A Statement containing the particulars relating to the Company as required by the Companies (Acceptance of Deposit) Rules 2014 and pursuant to any amendments thereof, is given below **FORM DPT-1**

 General Information a. Name, address, website and other contact details of the company Ricela Health Food Limited, Registered Office: SCO. No.14, First Floor Royal Sector Satara, Within Omaxe Royal Residency Pakhowal Road, Ludhiana, Punjab, Website: www.ricela.com Ph. No:-0161- 4662095 b. Date of incorporation of the company: November 11, 1992 c. Business carried on by the company and its subsidiaries with the details of branches or units, if any: The Company is engaged in the business of Extraction and Refining of Edible Oil. Subsidiaries and Branches: Nil d. Brief particulars of the management of the company. The Company is managed by Board of Directors of the Company, e. Names, addresses, DIN and occupations of the directors.

DIN	Name	Address	Occupation
00224747	Mr. Achhru Ram Sharma	House No. 349, Ward No. 10, A.P. Enclave, Sangrur, Bye Pass Road, Dhuri-148024 Punjab	Business
00162292	Mr. Vijay Kumar Goyal	House No. 146 B, Yash Chaudhary Market, Ward No. 16 B, Dhuri-148024	Business
00147734	Mr. Parshotam Dass	House No. 351, Ward No. 10, A.P.Enclave, Dhuri-148024 Punjab	Business
00507724 Mr. Parmod Kumar Goyal		H. NO-11,Good Friends Colony, Barewal Road, Ludhiana-141012	Professional
01802855	Mr. Baldev Raj Kalra	H. NO 60B, Sargoda Colony, Pakhowal Road, Ludhiana-141002	Business
08164935	Ms. Jyoti Singla	9, Jassian Road, Jawala Singh Enclave, Near Jawala Singh Chowk,Ludhiana Punjab,India,141001	Consultant

f. Management's perception of risk factors: Business of the Company depends upon agricultural produce which is seasonal. g. Details of default, including the amount involved, duration of default and present status, in repayment of - (i) Statutory dues: Nil(ii) Debentures and interest thereon: Nii(iii) Loan from any bank and interest thereon: Nii 2. Particulars of the deposit scheme: a. Date of passing of board resolution: 31.07.2021 b. Date of passing of resolution in the general meeting authorizing the invitation of such deposits: 30.09.2021 c. Type of deposits: Unsecured. d. Amount which the company can raise by way of deposits as per the Act and the rules made thereunder, and the aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year and on the date of issue of the advertisement and amount of deposit proposed to be raised and amount of deposit repayable within the next twelve months: 1. Amount of Deposit can raise by way of deposit: Rs. 32,91,04,267/- as per last audited financial statement. 2. Aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year: Rs.109,714,000/- 3. Aggregate of deposits actually held on the date of issue of the advertisement: Rs.10,09,89,272/- 4.Amount of deposit proposed to be raised: Rs. 22,81,14,995/- 5. Amount of deposit repayable within the next twelve months as on last date of preceding financial year. Rs. 62,501,000/- e. Terms of raising of deposits: Duration, Rate of interest, mode of payment and repayment

Minimum Deposit	Duration	Rate of Interest	Mode of Payment	Mode of Repayment
5000	1-3 Years	07%	Account payee Cheque or other banking channel	Account Payee Cheque or other banking channel

1. Applications form shall be available and accepted at registered office of the Company. 2. Interest shall be paid annually and be cumulative at the option of depositor. 3. Deposit can be accepted in the joint names and all correspondence and payments there to shall be made to a person whose name appear first in application form. 4. The Fixed Deposit receipt shall be issued within 21 days of realization of the cheque. 5. Deposit will be paid on maturity but the Company reserves the right to repay the deposit at the request of the Depositor before the due date of such deposits in accordance with rule 15 of the Companies (Acceptance of deposit) Rules 2015. 6. TDS shall be deducted in accordance with Income Tax Act 1961. f. Proposed time schedule mentioning the date of opening of the Scheme and the time period for which the advertisement is valid: The Scheme shall be opened from the date of publication in newspapers and shall be valid upto AGM of the financial year ending 31-03-2022; g. Reasons or objects of raising the deposits: The Company intends to raise the funds for its working capital requirements and general corporate funding. h. Credit rating obtained; Name of the Credit Rating Agencies, Rating obtained, Meaning of the rating obtained, Date on which rating was obtained. Name of Credit Rating Agency: CRISIL Rating obtained: Long term rating: CRISIL BBB-/ Stable Meaning of rating obtained: Stable Date of rating obtained: 11.04.2021 i. Extent of deposit insurance: Name of the Insurance Company, terms of the insurance coverage, duration of coverage, extent of coverage, procedure for claim in case of default etc: Not Applicable j. Short particulars of the charge created or to be created for securing such deposits, if any: Not Applicable k. Any financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel in such deposits and the effect of such interest in so far as it is different from the interests of other persons: No financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel in such deposits. 3. Details of any outstanding deposits as on 31.03.2021 a. Amount Outstanding:109,714,000/- b. Date of Acceptance: On various dates. c. Total amount Accepted: 9,775,000/-(Including renewed deposits) d. Rate of Interest:06%-11% e. Total number of Depositors : 45 f. Default, if any, in repayment of deposits and payment of interest thereon, if any, including number of depositors, amount and duration of default involved; Nil. Any waiver by the depositors, of interest accrued on deposits: Nil 4. Financial position of the company a. Profits of the company, before and after making provision for tax, for the three financial years immediately preceding the date of issue of advertisement; (Rs. in Crore)

П	For the Financial Year Ended	Profit before Tax	Profit after Tax
Т	31-03-2019	4.80	(2.47)
	31.03.2020	4.99	3.41
	31.03.2021	22.51	17.42

b. Dividends declared by the company in respect of the said three financial years; interest coverage ratio for last three years (Cash profit after tax plus interest paid):

For the Financial Year Ended	Dividend	Interest Coverage Ratio
31-03-2019	9	1.22
31.03.2020		1.97
31.03.2021		4.18

c. A summary of the financial position of the company as in the three audited balance sheets immediately preceding the date of issue of advertisement; 21 02 2021 21 02 2020 21 02 2010

Liabilities	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	Assets	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2019
Share Capital	1.24	1.24	1.24	Non Current Assets	59.80	60.14	56.77
Reserves & Surplus	93.95	76.53	73.12	Current Assets	149.51	209.02	243.63
Non Current Liabilities	12.83	19.07	21.73				
Current Liabilities	101.29	172.32	204.31				/-
TOTAL	209.31	269.16	300.4	TOTAL	209.31	269.16	300.4
d. Audited Cash Flow Sta	tement for the	three years	immediately	preceding the date of iss	ue of advertis	sement: (I	Rs. in Crore)

d. Audited Cash Flow Statement for the three years immediately preceding the date of issue of advertisement :					
S. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	
1.	Cash flows from operating activities	90.51	36.03	64.75	
2.	Cash flows from investing activities	(8.90)	(8.25)	(9.55)	
3.	Cash flows from financing activities	(81.64)	(27.88)	56.07	
4.	Net increase/(decrease) in cash & cash equivalents	(0.03)	(0.1)	(0.87)	

company has not defaulted in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act or payment

of interest there on; (b) The board of directors have satisfied themselves fully with respect to the affairs and prospects of the company and that they are of the opinion that having regard to the estimated future financial position of the company, the company will be able to meet its liabilities as and when they become due and that the company will not become insolvent within a period of one year from the date of issue of the advertisement; (c) The company has complied with the provisions of the Act and the rules made there under; (d) The compliance with the Act and the rules does not imply that repayment of deposits is guaranteed by the Central Government; (e) The deposits accepted by the Company before the commencement of the act have been repaid. (f) In case of any adverse change in credit rating, depositors will be given a chance to withdraw deposits without any penalty. (g) The deposits shall be used only for the purposes indicated in the circular or the circular in the form of advertisement. (h) The deposits accepted by the company (other than the secured deposits, if any, aggregate amount of which to be indicated) are unsecured and rank pari passu with other unsecured liabilities of the Company. This advertisement is issued on the authority and in the name of the Board of Directors. The text hereof has been approved by the Board of Directors at its meeting held on 31.07.2021 and a copy thereof, signed by the majority of the Directors of the Company, and has been filed with the Registrar of Companies, Chandigarh.

For Ricela Health Foods Limited

By the order of the Board of Directors

Mr. Parshotam Dass Garg Whole time Director

Place: Mumbai **Date**: January 19, 2022

financialexp.er







Place: Dhuri - Punjab

Date: 31.07.2021

New Delhi

OSBI

आईटी-पार्टनर रिलेशनशिप एंड बीएनसीसी डिपार्टमेंट भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी सेन्टर, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614

शुद्धिपत्र-1

सेवा प्रदाताओं के पैनल में शामिल होने और ई-टेंडरिंग, फॉरवर्ड ऑक्शन और रिवर्स ऑक्शन सर्विसेज के लिए रेट डिस्कवरी हेतु कृपया आरएफपी सं. SBI/GITC/Partner Relationships/2021/2022/820 दिनांकित: 03.01.2022 देखें. इस आरएफपी का 'शुद्धिपत्र' जारी किया गया है. कृपया https://www.sbi.co.in पर ''प्रोक्यूरमेंट न्यूज'' एवं ई-प्रोक्यूरमेंट एजेन्सी पोर्टल https://etender.sbi/SBI/ पर विज़िट करें.

स्थान: नवी मुंबई तिथि: 20.01.2022

उप महाप्रबंधक आईटी-पार्टनर रिलेशनशिप एंड बीएनसीसी



Before the Central Government Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana

In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND II the matter of M/s VALLEY GRASSFIELD RESORTS LLP having its registered office at Unit No. 121, First Floor, Wadham Premin Mall Outer Ring Road, Deepali, Pitampura North West Delhi, North Delhi - 110034 (DL) Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "DELHI" to the state of "RAJASTHAN". Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, within 21(twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above. For and on behalf of

VALLEY GRASSFIELD RESORTS LLP

Date: 18.01.2022 Place: New Delhi

RADHIKA PAREEK DPIN: 05236430 (Designated Partner)

वरि. महाप्रबंधक / वा. एवं चरि. / क्षेत्र-।

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362 266,

शाखा कार्यालय : आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उसरा तल, नं. 2, साबू टॉवर, चोपासानी रोड, सामने धनलक्ष्मी बैंक, जोधपुर, राजस्थान-342003. अधिकृत प्राधिकारी : धर्मेन्द्र सिंह, मोबाइल : 917792000888, देवेन्द्र राठौर, मोबाइल : 919829222694, श्री तुंगध्वज कौशिक, मोबाइल : 09873662400, श्री पंकज राणा, मोबाइल नं. : 9911658080

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेत बिक्री सचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृत हि अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभितकरण एवं पनर्निर्माण के तहत अचर आस्ति(यों) की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों, जिस पर आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा कर लिया गया था, की बिक्री आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार के कर्जदारों तथा जमानती(यों) नामतः श्री अशोक मोहन पुत्र मोहन लाल बंजारा, श्रीमती सुमित्रा बंजारा की ओर बकाया 12 जनवरी, 2022 तक रु. 16,73,751.95/-एवं वसूली की तिथि तक भावी ब्याज एवं उस पर अन्य व्ययों की वसूली के लिए ''जहाँ है जैसे है'', ''जं है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 8 फरवरी, 2022 को की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 8,43,750/- (रुपये आठ लाख तैंतालीस हजार सात सौ पचास मात्र) तथा ईएमडी राशि आरक्षित मूल्य के 10% अर्थात रु. 84,375/- (रुपये चौरासी हजार तीन सौ पिचहत्तर मात्र) जमा करने की अन्तिम तिथि 7 फरवरी, 2022 तक या इससे पूर्व है।

अचल सम्पत्ति का विवरण :

आवासीय सम्पत्ति पर स्थित निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : प्लॉट नं. 390, खसरा नं. 384 चक नं. 2, अम्बेडकर नगर पाली, राजस्थान-306401 आदि बिक्री विलेख के अनुसार, सीमाएं ्पर्व : प्लॉट नं. 389, पश्चिम : इस प्लॉट का शेष भाग, उत्तर : प्लॉट नं. 395, दक्षिण : 20 फीट चौड़ी सड़क।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में अचल सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभृत लेनदार की वेबसाइट : https://homefinance.adityabirlacapital.com/propertiesfor-auction-under-sarfaesi-act अथवा https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें। तिथि : 20.01.2022 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : जोधपुर, राजस्थान

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर पार्ले, मुंबई—400013, सीआईएन नं. यू67190एमएच2008पीएलसी187552

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पित्तयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत मांग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत कर दी हैं, जिन सूचनाओं में उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) (सभी एकत् रूप में अथवा संयुक्त रूप में ''बाध्यताधारियों यानी ऑब्लिगर्स'' के रूप में संदर्भित)/उनके कानूर्न वारिस(सों) / विधिक प्रतिनिधि(यों), जिनकी सूची नीचे दी गई है, सभी को संबंधित मांग सूचना / ओं में वर्णित बकाया धनराशियों का. संबंधित सचना /ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसा भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई थीं तथ जो अब भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त बाध्यताकारी(रियों) / कानुनी वारिस(सों) / विधिव प्रतिनिधि(यों), यदि वे ऐसा करने के इच्छक हैं, तो किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान

उपरोक्त के संबंध में, एतदद्वारा उक्त बाध्यताकारी(रियों) / कानूनी वारिस(सों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को एव बार पुनः सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) को, संबंधित सूचना / ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां नीचे इसमें उल्लिखित धनर . शियों का, उक्त बाध्यताकारी(रियों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध एवं अन्य प्रलेखों ∕ आलेखों, यदि कोई, के साथ पिठत, स्तंभ (घ) में निम्न वर्णित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा / अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित होनेवाले भावी ब्याज, निम्न विवरणितानुसार, के साथ भुगतान करें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, उक्त बाध्यताकारी(रियों) द्वारा टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल के पास क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को बंधक के रूप में रखा गया है।

सं.		तिथि के अनुसार	तिथि
	निधि(यों) के नाम		एनपीए की तिथि
TCHHF03		24.12.2021 के अनुसार रु.	
99000100		75,60,583 / — (रुपए पिचहत्तर लाख	
003706 &		साठ हजार पांच सौ तिरासी मात्र) ऋण खाता सं. टीसीएचएचएफ	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
TCHHF03 99000100	(सह—उधारकता) क रूप म 	0399000100003706 के अंतर्गत आपके	
068123		द्वारा देय एवं भुगतानयोग्य है तथा रु.	
333123		14,67,642 / — (रुपए चौदह लाख	
		सतसठ हजार छह सौ बयालिस मात्र)	
		की एक राशि जो है वह ऋण खाता सं.	
		टीसीएचएचएफ0399000100068123 के अंतर्गत आपके द्वारा देय एवं	
		भुगतानयोग्य है अर्थात् कुल रु.	
		90,28,225 / — (रुपए नब्बे लाख	
		अट्ठाईस हजार दो सौ पच्चीस मात्र) की	
		एक राशि देय एवं भुगतानयोग्य है।	
ਸਵਿਸ਼ਤ ਸਹਿਸ	 प्राचित्रों /अन्य सम्म चित्रों	Varia umeni au Baur i suandi	, arrier at 644 a
भावभूत पारस	नन्यात्तया / अचल सम्पात्तया	/ बन्धक सम्पत्तियों का विवरण : आवासीर	ા મ ુલાંક સં. 511 લ

समस्त भाग तथा अंश इस प्रकार हैं, जिसका अधिमापन ४९.५० वर्ग मीटर अर्थात् ५९.२०२ वर्ग गज है जो सेक्टर 40, अर्बन एस्टेट गुड़गांव–।।, उप–तहसील वजीराबाद, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है और जो विक्रय विलेख में वर्णित समस्त आम सुख—सुविधाओं के साथ है।


*संबंधित मांग सूचना दिनांकित ऊपर वर्णित में अधिक विवरणात्मक रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों इत्यादि जो कि भुगतान तथा / अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त बाध्यताकारी(रियों) उपर्युक्तानुसार टीसीएचएफएल को भूगतान करने में विफल होंगे, तो टीसीएचएफएल उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पित्ति(यों) / अचल सम्पित्ति(यों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत, समग्र रूप में लागतों एव परिणामों से संबंधित, उक्त बाध्यताकारी(रियों) / कानूनी वारिस(सों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिमे

उक्त बाध्यताकारी(रियों) / कानूनी वारिस(सों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रति बंधित किया जाता है कि वे विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा, टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति—अनुमति के बिना, उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली क उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है, तो अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार उसे कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जाएगा।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) सीआईएन : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिगटन रोड, चेटपेत,चेन्नई-600031. दुरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.



परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन तथा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार, सह–कर्जदारों तथा जमानतियों 1. हाईटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2. श्री जमाल अहमद, 3. श्री मोहम्मद हारून, 4. श्रीमती कमरुन्निसा अलीशेरचांद से 21.08.2021 तक सुचना में लिखित राशि रु. 87,31,409.88/- (रुपये सत्तासी लाख इकतीस हजार चार सौ नौ एवं अट्टासी पैसे मात्र) का कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 07.02.2020 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदारों के राशि के पूनर्भगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शिक्तयों के उपयोग में 17 जनवरी, 2022 को सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन रु. 87,31,409.88/- (रुपये सत्तासी लाख इकतीस हजार चार सौ नौ एवं अट्ठासी पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्रभार

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

इंडस्ट्रियल प्लॉट/शेड नं. 83, ब्लॉक एफ, सेक्टर 8, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201301 में स्थित, माप क्षेत्रफल 204 वर्ग मीटर या कम या अधिक। तथा सीमाएं

पूर्व : प्लॉट एफ-84 सेक्टर 8, पश्चिम : प्लॉट नं. एफ-82, सेक्टर 8, दक्षिण : 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तर : प्लॉट नं. एफ-108 सेक्टर 8 अधिकत प्राधिकारी दिनांक : 17.01.022

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड स्थान : नोएडा (पर्व का कैपिटल फर्स्ट बैंक लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित ऋण खाता सं. : 19204557

SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED

CIN: U70101WB2006PLC109898 (A Company under Corporate Insolvency Resolution Process by an order dated October, 8,2021 passed by Hon'ble NCLT Kolkata) Head Office: Plot no. Y-10. Block EP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091 Registered Office: Vishwakarma 86C, Topsia Road (South), Kolkata-700046

Email:sefpl@srei.com Website:www.srei.com

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

[Rule 8(1) read with Appendix IV of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] WHEREAS.

The undersigned being the authorized officer of SREI Equipment Finance Limited ("Srei") under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 ("Act") and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules"), issued a Demand Notice dated 30th September, 2021 under Section 13(2) of the Act calling upon the Borrower, namely, Coronation Infrastructure Private Limited at E-0, The Miracorporate Suites, 1 & 2 Ishwar Nagar, New Delhi-110065 and the Mortgagors namely Mr. Surinder Singh Atwal and Mr. Ranjit Singh Atwal, residing at A-18, Neeti Bagh, New Delhi-110049 to repay the amount mentioned in the said notice, being Rs.54,45,76,624/- (Rupees Fifty Four Crore Forty Five Lacs Seventy Six Thousand Six Hundred and Twenty Four) only payable and due as on 15th September, 2021 together with further interest thereon, costs, charges and other monies until payment or realization, within 60 days from the date of receipt of the

The Borrower and the Mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and Mortgagors in particular and to the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the said properties (as described hereinbelow and belonging to the Mortgagors) in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the Act read with Rule 8 of the Rules on 17.01.2022.

The Borrower and the Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the said properties and any dealings with the said properties will be subject to the charge of Srei for an amount of Rs.54,45,76,624/- (Rupees Fifty Four Crore Forty Five Lacs Seventy Six Thousand Six Hundred and Twenty Four) only as on 15th September, 2021, together with further interest thereon, costs, charges and other monies.

The Borrower's and the Mortgagors' attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and repay the aforementioned dues to Srei.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

SI. No.	Description of Mortgaged Property	Name of Owners
1	ALL THAT pieces and parcels of Land admeasuring 8 Bigha and 3 Biswas (Approx. 1.70 Acres) out of entire land 13 Bigha, 1 Biswa, comprised in Mustatil No. 35, Killa No. 18 (4-0) and 23 Min (4-3), situated in village Mehrauli, Tehsil Mehrauli, New Delhi together with a G+1 building admeasuring 4,710 Sq Ft (Built Up area) and any saleable areas thereon and all plants and machineries attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth and all benefits, rights, advantages accruing both in present and future.	Surinder Singh Atwal Ranjit Singh Atwal
Date : 1	7.01.2022	Authorised Office

Date: 17.01.2022 Place: New Delhi (SREI Equipment Finance Limited)

SHALIMAR

शालीमार पेंट्स लिमिटेड

सीआईएनः एल24222एचआर1902पीएलसी065611

पंजी. कार्यालयः स्टेनलेस सेंटर, 4वां तल, भूखंड सं. 50, सेक्टर—32, गुरुग्राम, हरियाणा—122001 निगमित कार्यालयः प्रथम तल, भूखंड सं. 28, सेक्टर-32, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 वेबसाइटः www.vikaslifecarelimited.com, ई-मेलः cs@vikaslifecarelimited.com दूरभाष सं.: 91 124 461 6600, फैक्स नं. 91 124 461 6659

वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु 1वीं असाधारण सामान्य बैठक की सूचना

दूरस्थ ई-मतदान जानकारी

1) शालीमार पेंटस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की वित्तीय वर्ष 2021–22 ("ईजीएम") हेत् 1वीं असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन गुरुवार 10 फरवरी 2022 को 11.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी'') / अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से किया जाएगा, और यह आयोजन जो है वह ईजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार विशेष व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए किया जाएगा, जो किसी आम स्थल पर सदस्यों की शारी रिक अर्थात व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्रों संख्याएं क्रमशः 14 / 2020. 17 / 2020. 22 / 2020 33/2020, 39/2020, 10/2021 एवं 20/2021 दिनांकित 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 15 जून 2020, 28 सितंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 23 जून 2021 और 08 दिसंबर 2021 के माध्यम से (सामूहिक रूप में "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित") और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र'') द्वारा निर्गत परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन के तहत ईजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार किया जाएगा।

2) एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के निबंधनों के अंतर्गत ईजीएम की सूचना जो है वह उन सदस्यों को केवल ईमल द्वारा 19 जनवरी 2022 को प्रेषित कर दी गई है, जिनके ईमेल पते 07 जनवरी 2022 को कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को ईजीएम की सूचना की वास्तविक प्रति भेजे जाने की आवश्यकता की जानकारी एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों द्वारा वितरित कर दी गई है।

3) ऐसे सदस्यगण जो कट–ऑफ तिथि अर्थात् 03 फरवरी 2022 के अनुसार या तो भौतिक प्रारूप में अथवा अभौतिक प्रारूप में समता अंशों को धारण किए हुए हैं, वे सीडीएसएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना

- मतदान कर सकते हैं। समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है किः • ईजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार विशेष व्यवसायों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने द्वारा लेन-देन किया जाएगा:
- दूरस्थ ई-मतदान अवधि का प्रारंभ 07 फरवरी 2022 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) होगा;
- दूरस्थ ई-मतदान अवधि का समापन ०९ फरवरी २०२२ को सायं ०५.०० बजे (आईएसटी) होगा;
- ईजीएम की समयाविध में दूरस्थ ई-मतदान / ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने की योग्यता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 03 फरवरी 2022 है और यदि कट-ऑफ तिथि के अनुसार एक व्यक्ति जो एक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी उद्देश्यों के लिए समझा/माना
- कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषणोपरांत कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात् 03 फरवरी 2022 के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह पर ईमेल द्वारा एक अनुरोध भेजकर प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि एक ऐसा व्यक्ति जो ई-वोटिंग के लिए बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह मतदान करने के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी
- व्यक्ति जो ईजीएम की सूचना को भेजने के उपरांत कंपनी के अंशों का उपार्जन करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और अंशों का धारण किए हुए है और मतदान के लिए योग्य है, वह ईजीएम की सूचना में उपलब्धानुसार लॉगिन आईडी और पासवर्ड सृजित करने के लिए प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति ई-मतदान हेत् सीडीएसएल के साथ पहले ही पंजीकृत है तो मतदान करने के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी
- श्री मोहित माहेश्वरी, साझीदार अथवा फलिंग हिम श्री अंकुश अग्रवाल, मै. एमएकेएस एण्ड कं. के साझीदार, पेशेवर कंपनी सचिव को एक उचित एव पारदर्शी तरीके यानी विधि के अंतर्गत ई-मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।
- सदस्यगण नोट करें किः क) दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल जो है वह मतदान हेतु उपर्युक्त तिथि एवं समय के उपरांत अयोग्य कर दिया जाएगा और यदि सदस्य द्वारा किस संकल्प पर एक बार मतदान कर दिया जाता है तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी; ख) सदस्यगण जो ईजीएम से पहले दूरस्थ ई–मतदान द्वारा अपना मतदान कर चुके हैं वे भी ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें पुनः अपना मतदान करने का अधिकार नहीं होगा; ग) इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से मतदान करने के लिए उपलब्ध सुविधा ईजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी; तथा घ) एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अथवा सदस्यों की पंजिका में अभिलेखित है, केवल वे ही दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा के साथ-साथ ईजीएम में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे
- यदि आपकी ईजीएम में उपस्थित होने और ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न अथवा शिकायत है तो आप हेल्प सेक्शन के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेज/लिख सकते हैं अथवा श्री राकेश दलवी (022–23058542/43) से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे सदस्यगण जो भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण किए हुए हैं और जिनके ई–मेल पते कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र अपने ईमेल पते पंजीकृत कर लें। इस हेतु सदस्य(यों) द्वारा एक विधिवत ढंग से हस्ताक्षरित पत्र की स्कैंड प्रति भेजी जानी चाहिए, जिसमें उनका नाम, पूर्ण पता, फोलियो नंबर, कंपनी के साथ धारित अंशों की संख्या और साथ में पैन कार्ड की स्वयं–सत्यापित स्कैंड प्रति और निम्नलिखित प्रलेखों में से किसी एक प्रलेख की स्वयं-सत्यापित स्कैंड प्रति होनी चाहिए—आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पत्र, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल अथवा कंपनी के साथ पंजीकृतानुसार सदस्य के पता साक्ष्य के अनुसमर्थन में कोई अन्य सरकारी प्रलेख जो है वह ईजीएम सूचना प्राप्त करने के लिए askus @shalimarpaints.com पर कंपनी को मेल करें। इलेक्ट्रॉनिक / डिमेट प्रारूप में अंशों को धारित करनेवाले सदस्यगण जो हैं वह अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को अद्यतित कर सकते हैं।

ईजीएम की सूचना में उस विधि से संबंधित अनुदेश समाविष्ट हैं जिसके तहत अंशधारकगण जो हैं वे ईजीएम के समय पर ई-वोटिंग द्वारा अथवा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम से जुड़ सकते हैं। ईजीएम की सूचना जो है वह कंपनी की वेबसाइट www.shalimarpaints.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट(टों) अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां-जहां कंपनी के अंश सूचीबद्ध हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते शालीमार पेंट्स लिमिटेड शिखा रस्तोगी दिनांकः 19 जनवरी 2022



IDFC FIRST

Bank

433, भेरा एनक्लेव पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतदवारा सुचित किया जाता है कि केनरा बँक की **433, भेरा एनक्लेव पश्चिम विहार, नई दिल्ली—110087 शाखा** के साथ कई नॉकर धारकों द्वारा खोले गए हैं और जिनके संबंध में लॉकर समझौते गायब हैं और साथ ही. लॉकर धारक पिछले लॉकर का संचालन नहीं कर

Б. Н.	लॉकर धारक का नाम	लॉकर नं.	पता	लॉकर प्रमारों के बकाया की तिथि	क्काया राशि (रु. में)	अंतिम ऑपरेशन
1	संदीपिका सहयत	2706A00476	RZG 3/1 निडाल विहार, पुरानी पोलिस चौकी के पास, नई दिल्ली-110041	1-अप्रैल-14	30714	10-अक्टूबर-12
2	अजय सभरवाल	The state of the s	GH 4/246, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ती-110087	1-अप्रैल-16	58941	10-दिसम्बर-201

छ मामलों में लॉकर घारक का स्वर्गवास होने का पता चला है। इस सूचना के द्वारा, एतदद्वारा सभी इच्छ्क व्यक्तियों को यह अधिसूचित किया नाता है कि वे इस सचना के 15 दिन की अवधि के भीतर संबंधित शाखाओं में लॉकर के संबंध में पुष्ट प्रमॉण जैसेकि पासपोर्ट, आधार कार्ड और नेवास का प्रमाण इत्यादि के साथ पधारें, लॉकर की बकाया राशि अदा करें तथा नया लॉकर एग्रीमेंट करें अथवा अपना सामान निकालें। पदि किसी लॉकर के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक लॉकर शुल्क के बकाया की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई के लिए विवश स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 17.01.2022

केनरा बैंक

स्क्रेप के रूप में वाहन को भौतिक नीलामी के लिये बिक्री सूचना

कता ऋगधारक स जब्त का गई निम्न वाहन बिक्रा के लिय उपलब्ध है। वाहन खरादन के लिय इच्छक व्यक्ति वाहन के भातिक निरक्षिण तथा विव लिये अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें। इच्छुक बोलीदाता ''वाहन जो किसी भी प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं, इंजिन नं. डी13ए 2729315, चैसिस नं. MA3FXEB1S00186286,'' की खरीद के लिये कोटेशन के रूप में शीर्षांकित महरबंद लिफाफे में अपना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं तथा वह 21.1.2022 के 12.00 बजे दोपहर तक अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाना चाहिए। मुहरबंद कोटेशनों को 24.1.2022 को 4.00 बजे अप. में प्रस्ताव जमा करने वाले क्रेताओं के समक्ष खोला जायेगा। सफल बोलीदाता को कोटेशन खुलने की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर कोट की गई सम्पूर्ण मुल्य का भगतान करना होगा अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा वाहन की तत्काल बिक्री कर दी जाएगी। वाहन की बिक्री जैसा है जहां है तथा जो भी जैसा है आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से ऊपर की जाएगी। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार है। वाहन का निरीक्षण व्हीकल यार्ड, डीएसए एसोसिएट्स, एच-17, साउथ एक्स्टें. पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 में किया जा सकता है।

नाम एवं खाता का विवरण	वाहन का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
श्री नीरज, पुत्र सुभाष चन्द (खाता नं. 82817790001505)	मारुति सिएज, व्हीकल नं. किसी भी प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं, इंजिन नं. डी 13ए 2729315, चैसिस नं. MA3FXEB1S00186286, निर्माण वर्ष 2015	रु. 65000 (स्क्रैप मूल्य)	रु. 6500/−
तिथि: 20.01.2022 स्थानो: सोनीपत, हरियाणा	अधि. अधिकारी, केनरा बैंक एंड डीएस श्री दीपे	ए एसोसिएट्स, 9910ः श (पार्किंग प्रबंधक)	

कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 301, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान), फोन : 0141-2943037, 9414077226 CIN: L67120RJ1990PLC005371, ई: मेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, वेबसाईट: www.continentalsecuritiesltd.com 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (ह. लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही	पूववर्ती समाप्त तिमाही	गतवर्ष के अंत मे समाप्त तिमाही	गत वर्ष समाप्ती
	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.03.2021
	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) कर के बाद शुद्ध लाभ ∕(हानि)	26.55	24.22	20.14	81.82
(कर, असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से पहले)	19.49	18.35	10.80	47.70
कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के पहले)	19.49	18.35	10.80	47.70
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	14.43	13.44	8.10	34.70
के लिए लाभ ⁄हानि	14.43	13.44	8.10	34.70
समता अंश पूंजी	425.06	425.06	425.06	425.06
रिज़र्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनमूंल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त) आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)	247.09	233.68	226.96	203.37
मूल तरल	0.33	0.32	0.19	0.81

टिप्पणी : उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के गैर अंकेक्षित विलीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाईट (www.continentalsecuritiesItd.com) पर उपलब्ध है। कते कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

स्थान : जयप्र दिनांक : 19 जनवरी, 2022

राजंश खुंटेटा (प्रबन्ध निदेशक) DIN: 00167672

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1995PLC064007

पंजीकृत कार्यालय : 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट, पीतमपुरा, उत्तरी दिल्ली-110034 वेबसाइट : www.grmrice.com | ई-मेल : grmrlcel@gmail.com दूरभाष नं. : 011-47330330 | फैक्स नं. : 011-(0180 - 2653673)

पोस्टल बैलट सूचना

एतद्वारा कम्पनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 के खतरे के कारण नवीनतम सामान्य परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 (एमसीए परिपत्र) तथा उसके तहत निर्मित नियमों के साथ पठित समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, एवं अन्य प्रयोज्य कानूनों तथा विनियमों के अनुसार, कम्पनी पोस्टल बैलट सूचना दिनांक 14 जनवरी, 2022 (पोस्टल बैलट सूचना) में निर्धारित विशेष प्रकार्य के परिप्रेक्ष्य में पोस्टल बैलट के माध्यम से अपने सदस्यों का अनुमोदन ग्रहण करेगी। एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में तथा कोविड-19 महामारी के खतरे के कारण कम्पनी पोस्टल बैलट सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भेजेगी और सहमित अथवा असहमित का सम्पर्क भी केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न होगा

कम्पनी ने पोस्टल बैलट सूचना केवल उन सदस्यों के पास भेजने का कार्य 19 जनवरी, 2022 को पूरा कर लिया है जिनके नाम एनएसडीएल तथा सीडीएसएल से प्राप्त के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं तथा जिनके ई-मेल पते (शुक्रवार), 14 जनवरी, 2022 ('कट-ऑफ तिथि') तक कम्पनी के पास

उपलब्ध हैं। कम्पनी केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट सूचना में उल्लिखित मामलों पर सामान्य प्रस्तावों के माध्यम से सदस्यों की सहमित चाहती है। पोस्टल बैलट सूचना की एक प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.grm

rice.com तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि (i) यथासंशोधित संशोधित नियमों के नियम 20 एवं नियम 22 (ii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व

एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा (iii) एमसीए परिपत्रों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी ने पोस्टल बैलट प्रपत्र के बजाय अपने मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम करने के लिए अपने सदस्यों को केवल रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा सुरक्षित ढंग से अपना मतदान करने में समर्थ करने हेतु सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ग्रहण की हैं। जिन सदस्यों के शेयर भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में हैं और जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वे अपने ई-मेल

आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट/अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत करा लें भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने ई-मेल पते सदस्य(यों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, अपने नाम, पूर्ण पते, फोलियो नम्बर, कम्पनी के साथ धारित शेयरों की संख्या की स्कैन्ड प्रति तथा पते के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज, जो कम्पनी के साथ पंजीकृत है, की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति यथाशीघ्र कम्पनी के पास lnvestor.grm@gmail.com पर ई-मेल द्वारा भेज दें ताकि वे पोस्टल बैलट सूचना प्राप्त कर सकें। जिन सदस्यों के शेयर डीमैट प्रारूप में हैं वे अपने ई-मेल पते अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ अपडेट करा सकते हैं। पोस्टल बैलट सूचना में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा सदस्यों को अपना मतदान करने की रीति से संबंधित समस्त निर्देश दिये गये हैं।

मैसर्स देवेश अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट प्रक्रिय संचालित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग 20 जनवरी, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. से प्रारम्भ होगी और शुक्रवार, 18 फरवरी, 2022 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। 18 फरवरी, 2022 को 5.00 बजे अप. के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी।

यदि कोई सदस्य 18 फरवरी, 2022 को 5.00 बजे अप. के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करता है तो रिमोट ई-वोटिंग को वैध मत नहीं माना जायेगा और यह माना जायेगा कि सदस्य का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

पोस्टल बैलट के परिणाम शनिवार, 19 फरवरी, 2022 को या इससे पूर्व घोषित किये जायेंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट सिंहत उपर्युक्त परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.grmrice.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर परिणामों की घोषणा के तुरन्त बाद प्रदर्शित किया जायेगा। कम्पनी तत्काल ही इन परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों के पास भी अग्रसारित करेगी जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

ई-वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ या शिकायत के लिए एनएसडीएल से ई-मेल द्वारा evoting@nsdl.co.in

पर अथवा दुरभाष : 1800 224430 या 1800 1020990 पर सम्पर्क करें। सदस्य कम्पनी के पास निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

बलवीर सिंह (कम्पनी सचिव)

Investor.grm@gmail.com पर भी लिख सकते हैं।

दिनांक : 19.01.2022

स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com

कीनकोर के पस बिन कोई कारण काए किसी अक्षव सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सरक्षित है। पर्ण विकास www.tenderwizard.com/CCIL, पर लॉन जॉन करें।

अनुबंध बाध्यताकारी(रियों) / कानूनी कुल बकाया देयराशियां (रु.) निम्न मांग सूचना की

दिनांक : 20.01.2022 स्थान : दिल्ली